

# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र

अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDT) [प्रथम वर्ष]

सत्रांत परीक्षा : 2010-11 (परीक्षा प्राप्तांक विवरण)

S.N.	Roll. Number	Name	Subject's Name	Assignment Marks		Term End Exam.		Maximum Marks	Marks Obtained	Total Marks	Total Obtained Marks	Percentage (%)	Division
				Passing Marks	Marks obtained in Assignment	Passing Marks	Marks obtained in Term-End Exam						
1	PGDT/10-11/142	अमित कुमार वर्मा	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	17	28	47	100	64	500	329	65.80	FIRST
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	17	28	55	100	72				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	18	28	44	100	62				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	24	28	52	100	76				
			परियोजना कार्य					100	55				
2	PGDT/10-11/143	आनंद कुमार	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	16	28	43	100	59	500	254	50.80	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	15	28	42	100	57				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	15	28	33	100	48				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	16	28	34	100	50				
			परियोजना कार्य					100	40				
3	PGDT/10-11/146	अटल बाजपेयी	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	18	28	46	100	64	500	327	65.40	FIRST
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	17	28	51	100	68				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	16	28	46	100	62				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	18	28	50	100	68				
			परियोजना कार्य					100	65				
4	PGDT/10-11/147	अविनाश कुमार अपूर्व	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	0	28	44	100	44	500	152	N/A	INCOMPLETE
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	0	28	46	100	46				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	0	28	33	100	33				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	0	28	29	100	29				
			परियोजना कार्य					100					
5	PGDT/10-11/153	चित्रा झा	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	0	28	43	100	43	500	164	N/A	INCOMPLETE
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	0	28	42	100	42				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	0	28	42	100	42				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	0	28	37	100	37				
			परियोजना कार्य					100					

6	PGDT/10-11/154	चित्तरंजन कुमार	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	18	28	44	100	62	500	310	62.00	FIRST
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	19	28	39	100	58				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	18	28	44	100	62				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	18	28	45	100	63				
			परियोजना कार्य					100	65				
7	PGDT/10-11/155	देवेन्द्र कुमार पारकर	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	22	28	45	100	67	500	327	65.40	FIRST
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	21	28	42	100	63				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	22	28	37	100	59				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	23	28	45	100	68				
			परियोजना कार्य					100	70				
8	PGDT/10-11/159	गायत्री सिंह	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	20	28	45	100	65	500	310	62.00	FIRST
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	20	28	41	100	61				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	17	28	34	100	51				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	19	28	44	100	63				
			परियोजना कार्य					100	70				
9	PGDT/10-11/161	जगदीश श्रीधरराव मढवे	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	19	28	44	100	63	500	269	53.80	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	17	28	31	100	48				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	17	28	29	100	46				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	19	28	28	100	47				
			परियोजना कार्य					100	65				
10	PGDT/10-11/162	सूर्यवंशी जयराम श्रीराम	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	15	28	40	100	55	500	263	52.60	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	14	28	39	100	53				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	16	28	30	100	46				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	17	28	32	100	49				
			परियोजना कार्य					100	60				
11	PGDT/10-11/164	उत्पल ज्योति महल	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	18	28	56	100	74	500	290	58.00	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	20	28	43	100	63				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	15	28	28	100	43				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	18	28	32	100	50				
			परियोजना कार्य					100	60				
12	PGDT/10-11/166	कविता	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	17	28	46	100	63	500	297	59.40	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	18	28	44	100	62				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	18	28	34	100	52				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	18	28	37	100	55				
			परियोजना कार्य					100	65				

13	PGDT/10-11/171	मंगनाले महेश्वर मोतीराम	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	14	28	44	100	58	500	253	50.60	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	14	28	41	100	55				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	15	28	30	100	45				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	14	28	31	100	45				
			परियोजना कार्य					100	50				
14	PGDT/10-11/173	ममता पाण्डेय	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	17	28	49	100	66	500	308	61.60	FIRST
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	17	28	48	100	65				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	18	28	35	100	53				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	19	28	35	100	54				
			परियोजना कार्य					100	70				
15	PGDT/10-11/177	मनोज कुमार	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	20	28	47	100	67	500	225	N/A	INCOMPLETE
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	18	28	0	100	18				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	15	28	33	100	48				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	17	28	35	100	52				
			परियोजना कार्य					100	40				
16	PGDT/10-11/180	मीता सोलंकी	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	19	28	44	100	63	500	226	N/A	INCOMPLETE
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	17	28	41	100	58				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	17	28	0	100	17				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	18	28	0	100	18				
			परियोजना कार्य					100	70				
17	PGDT/10-11/189	राजीव कुमार	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	18	28	43	100	61	500	240	48.00	THIRD
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	18	28	28	100	46				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	14	28	34	100	48				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	16	28	29	100	45				
			परियोजना कार्य					100	40				
18	PGDT/10-11/190	राजेश कुमार प्रमाणिक	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	17	28	48	100	65	500	292	58.40	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	18	28	43	100	61				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	17	28	41	100	58				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	18	28	35	100	53				
			परियोजना कार्य					100	55				
19	PGDT/10-11/196	रिमा हैण्डिक	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	15	28	39	100	54	500	232	46.40	THIRD
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	18	28	30	100	48				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	14	28	28	100	42				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	20	28	28	100	48				
			परियोजना कार्य					100	40				

20	PGDT/10-11/197	ऋचा	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	16	28	45	100	61	500	257	51.40	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	18	28	42	100	60				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	13	28	34	100	47				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	18	28	31	100	49				
			परियोजना कार्य					100	40				
21	PGDT/10-11/198	ऋचा तिवारी	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	0	28	43	100	43	500	153	N/A	INCOMPLETE
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	0	28	39	100	39				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	0	28	32	100	32				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	0	28	39	100	39				
			परियोजना कार्य					100	0				
22	PGDT/10-11/199	संदीप पाहवा	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	20	28	49	100	69	500	305	61.00	FIRST
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	21	28	43	100	64				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	21	28	36	100	57				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	24	28	31	100	55				
			परियोजना कार्य					100	60				
23	PGDT/10-11/202	शशि कान्त शर्मा	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	0	28	60	100	60	500	200	N/A	INCOMPLETE
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	0	28	50	100	50				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	0	28	43	100	43				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	0	28	47	100	47				
			परियोजना कार्य					100					
24	PGDT/10-11/206	सुन्दरम शांडिल्य	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	20	28	44	100	64	500	320	64.00	FIRST
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	21	28	44	100	65				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	18	28	42	100	60				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	20	28	41	100	61				
			परियोजना कार्य					100	70				
25	PGDT/10-11/211	युम्माम पेपारा देवी	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	19	28	47	100	66	500	288	57.60	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	18	28	46	100	64				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	18	28	30	100	48				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	17	28	28	100	45				
			परियोजना कार्य					100	65				
26	PGDT/10-11/215	विनय कुमार	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	17	28	34	100	51	500	262	52.40	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	20	28	31	100	51				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	18	28	30	100	48				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	17	28	30	100	47				
			परियोजना कार्य					100	65				

27	PGDT/10-11/216	विनय कुमार दुबे	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	16	28	40	100	56	500	266	53.20	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	15	28	35	100	50				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	17	28	32	100	49				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	18	28	28	100	46				
			परियोजना कार्य					100	65				
28	PGDT/10-11/165	के. आर. विजया	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	17	28	31	100	48	500	253	50.60	FAIL
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	18	28	27	100	45				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	19	28	28	100	47				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	19	28	29	100	48				
			परियोजना कार्य					100	65				
29	PGDT/10-11/170	एम. एम. कविता	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	18	28	38	100	56	500	272	54.40	SECOND
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	18	28	36	100	54				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	16	28	28	100	44				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	19	28	34	100	53				
			परियोजना कार्य					100	65				
30	PGDT/10-11/204	श्वेता चतुर्वेदी	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	0	28	44	100	44	500	124	N/A	INCOMPLETE
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	0	28	33	100	33				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	0	28	19	100	19				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	0	28	28	100	28				
			परियोजना कार्य					100	0				
31	PGDT/10-11/212	विनीता	अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	12	0	28	57	100	57	500	167	N/A	INCOMPLETE
			अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष	12	0	28	47	100	47				
			व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और	12	0	28	32	100	32				
			प्रशासनिक अनुवाद	12	0	28	31	100	31				
			परियोजना कार्य					100	0				